BELLA CASA FASHION & RETAIL LTD

(Formerly Known as Gupta Fabtex Pvt. Ltd.) Importers, Manufacturer & Exporters of: Home Furnishing, Garment & Fabrics Ph.: 0141-2771844 E-mail: info@bellacasa.in Website: www.bellacasa.in

CIN: L17124RJ1996PLC011522

Date: September 9, 2020

E-102, 103, EPIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur - 302022, INDIA

Ref-BSE/2020-21/23

To,

Corporate Relationship Department,

BSE Limited

Phioze Jeejeebhoy Tower,

Dalal Street,

Mumbai – 400 001

Subject-Intimation under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Scrip Code-539399

Dear Sir/Ma'am,

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of newspaper advertisement published in Dainik Navjyoti (Hindi Newspaper) and Financial Express (English Newspaper) on 09th September, 2020 regarding Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday, September 30, 2020 at 12:00 p.m. IST through Video Conferencing / Other Audio Visual Means.

Kindly take this information on record.

Yours faithfully

For Bella Casa Fashion & Retail Limited

Sonika Gupta

Company Secretary

Membership No.: A38676

कार्नाकः एक (नेपराज्ञां) वार्षकार निर्माकिय वार्ति के जिस्स कार्यों है प्रियम सिख्या 07/2020 नगर परिषद राजसमन्द द्वार्गना निर्माकिय योगकों के विकास कार्यों है, त्यार विषागों में एवं नाला सप्पाई कार्य हेतु अम विभाग में पंजीकृत संवेदकों, कापनी, संगठनों, संस्थानों से ई-प्रोक्यूरोम-र प्रोक्रम हो आनेलाईन तकनीकी व वित्तय निवदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

SHOW CAUSE NOTICE TO THE BORROWER/GUARANTOR(S) /NON- GRO CORPORATE GUARANTOR(S)/ GROUP CORPORATE GUARANTOR(S)

M/s Karan Enterprises Borrower, Plot No. 1 Tagore Nagar, Ajmer Road, DCM Opp. Regal Restaurant Jaipur-302022 | Jaipur (Raj.)

Dear Sir/s, REG.: Identification of default in the loan account of M/s Karan Enterprises; BO: Johan Bazar, Jaipur with the Bank, as "Wilful"-Consequently disclosing and publish

Please refer to branch notice dated 06.09.2019 (Notice returned undelivered and published in the Newspaper on 15.11.2019) vide which branch had pointed out event(s) of wilful default in the loan account. No reply/representations were received by the Bank. The facts of

the matter were placed before the Committee for identification of Wilful Defaulters, who after

going through facts of the matter, evidence on record and your representation made, has found that there is /are event(s) of wilful default committed by you. Accordingly, the "Committee for identification of Wilful Defaulters" set up by the bank, has identified the

default, as Wilful to classify you (Borrower) & Directors/Partners/etc. as "Wilful Defaulter

The Firm has disposed off the hypothecated stock without depositing the sales proceeds in the Bank. As per visit report dated 25.11.2019 by Branch Officials, the borrower has not found at the business address & no activities was running."

In case you feel aggrieved by the conclusion of the "Committee for Identification of Wilful Defaulters", you may make a submission/representation, if you so desire, to the "Committee

for Identification of Wilful Defaulters" and show cause as to why you should not be classified

as "wilful defaulter". Your submission/representation must reach us within 15 days of the

receipt hereof and be sent to Dy. General Manager, SASTRA DIVISION 3rd Floor, Punjab National Bank, Corporate Office, Sector-10, Dwarka, New Delhi.

If we do not receive any submission/representation of yours, it would be deemed that you have nothing to say in your defence (against the conclusion of the "Committee for identification of Wilful Defaulters") and Bank may publish your name or the name/s of your

company/firm/ unit and your Director/s/Partner/s/Proprietor as "Wilful Defaulters" to RBI/CIBIL/other credit information Companies and in such manner and through such medium as the bank in their absolute discretion may think fit. (Rajendra Singh Rathore) (Rajeev Khera) (Agyey Kumar Azad

ई-निविदा सूचना 14/2020-21

नगर परिषद मय डिफेक्ट लायबिलीटी अवधि के लिए राजस्थान सरकार के "AA" "A" "B" "C"

एवं "D" श्रेणी के संवेदको एवं केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार व उनके अधिकत संगठनों

पंजीकृत संवेदको जो कि राजस्थान सरकार के "AA" "A" "B" "C" एवं "D" श्रेणी के संवेदकों व

समकक्ष हो उनसे परिषद क्षेत्र में निर्माण कार्यों हेतु दर अनुबन्ध निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-

प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन है निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा संबंधि

निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेब साईट <u>http://dipr.rajasthan.gov.in</u>

/tender.asp.http://sppp.gov. पर तथा http://eproc.rajasthan.gov. पर देखा जा सकता है

डच्छक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट

राज.संवाद / सी / 4242 / 2020–21

SHOW CAUSE NOTICE TO THE BORROWER/GUARANTOR(S) /NON- GROU

Shri Radhev Shvam, Partner Ward No. 3, Gali No. 3, Purani Abadi, Sriganganagar-335001

Dear Sir/s, REG.: Identification of default in the loan account of M/s Renuka Farmers LLP BO: MCB, Jaipu

with the Bank, as "Wilful"-Consequently disclosing and publishing your name/s as "Wilful

Unauthorized Disposal/Removal of the charged assets: "As per visit report of Branch Officials

In case you feel aggrieved by the conclusion of the "Committee for Identification of Wilful

Defaulters', you may make a submission/representation, if you so desire, to the "Committee for Identification of Wilful Defaulters" and show cause as to why you should not be classified as "wilful defaulter". Your submission/representation must reach us within 15 days of the receipt hereof and be sent to Dy. General Manager, SASTRA DIVISION 3rd Floor, Punjab National Bank, Head Office, Dwarka, Sector-10, New Delhi.

If we do not receive any submission/representation of yours, it would be deemed that you have

In we to the tective any submission/representation of yours, it would be deemed that you have nothing to say in your defence (against the conclusion of the "Committee for identification of Wilful Defaulters") and Bank may publish your name or the name/s of your company/firm/ unit and your Director/s/Partner/s/Proprietor as "Wilful Defaulters" to RBI/CIBIL/other credit

information Companies and in such manner and through such medium as the bank in the

(Rajeev Khera)

General Manager-Credit

dated 02.07.2019 reported that no stock could be verified as both the warehouses were locked." Also branch official along with the Chief Auditor on 18.12.2018, the visiting officials tried to peep through the side windows and it was observed that there was no stock in the warehouses. There was no stock at plot No. 15, Udyog Vihar, Sarna Doongar, Further, at the time of previous visit also there was no stock at plot No. 15, Udyog Vihar, Sarna Doongar.

CORPORATE GUARANTOR(S)/ GROUP CORPORATE GUARANTOR(S)

98.07 लाख

07.09.2020

17.09.2020

18.09.2020

18 09 2020

DLB2021A3188

DLB2021WSOB12125 To 12131

SASTRA Division, Corporate Office, Dwarka, Sector-10,

New Delhi-110075

Sriganganagar-335001

नगर परिषद बांसवाङ्

(Agyey Kumar Azad)

Executive Director

विवरण इंटरनेट साइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है

ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की दिनांक 16.09.2020

http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है

कार्यालय नगर परिषद बांसवाड़ा (राज.) 🕯

General Manager-Credit

टेलिफोन नं. 02952-220034, फेक्स नं. 02952, 221233, ईमेल rajsamandnagarpa क्रमांकः एफ ()नपरा/इंजी/ई निविदा/07/2020/ ई-निविदा सचना संख्या 07/2020

निविदा कार्यक्रम

कार्य की संख्या

कार्यों की अनुमानित लागत

निविदा डाउनलोड प्रारम्भ तिथि

ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि

name/s as "Wilful Defaulters"

iphoning of Funds:

General Manager-Sastra

निविदा में कुल कार्य

निविदा की कुल लागत

निविदा की धरोहर राशि

जमा करवाने की दिनांक

नगर परिषद बांसवाड़ा

Jaipur-302001

absolute discretion may think fit. [Rajendra Singh Rathore]

General Manager-Sastra

NIB No

UBN No

ऑनलाईन निविदा फॉर्म मिलने की दिनांक

निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि डिमांड ड्रफ्ट

अथवा बैंकर चैक कार्यालय में भौतिक रूप से

ऑन लाईन तकनीकी बिड खोलने की दिनांक

ऑनलाइन वित्तीय बिड खोलने की दिनांक

फोनः 02962-243714, 247201, फैक्सः 02962-243714

क्रमांकः एफ 5()निर्माण/न.प.बा./2020-21/65-68

ऑनलाईन निविदा हेत वेबसाईट

दोष निवारण अवधि

ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

कार्यालय नगरपरिषद, राजसमन्द

किशोरनगर राजनगर-कांकरोली रोड

NIB No. DLB2021A3202

(Agyey Kumar Azad)

दिनांकः 04/09/2020

Email Id: Palika.bsw@gmail.com

Executive Director

49

1140.76 লাख

05.09.2020 02.00 पीएम

22.09.2020 04.00 पीएम

23.09.2020 04.00 पीएम

http://eproc.rajasthah.gov.in

SASTRA Division, Corporate Office, Dwarka, Sector-10.

New Delhi-110075

आतंकवादी निरोधक दस्ता (एटीएस) ने मंगलवार को बिना पासपोर्ट व वीजा के रह रहे विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। एडीजी (एटीएस एवं एसओजी) अशोक राठौड़ के अनुसार एटीएस को सूचना मिली कि जयपुर शहर के श्याम नगर क्षेत्र के देवी नगर इलाके में बने आवासीय फ्लैट में एक विदेशी नागरिक बिना पासपोर्ट व वीजा के रह रहा है। इस व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध हैं।सचना पर एटीएस की टीम ने मंगलवार को जांच की तो फ्लैट पर विदेशी

नागरिक मिला। उसने खुद का नाम

डिमीट्रोर बोरकोवेट्स (31) खारवो सिटी यूक्रेन का होना बताया।

एटीएस की टीम ने इसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 25 ग्राम चरस व 95 ग्राम गांजा बरमद किया। इसी बिल्डिंग में उसके कब्जे वाले अन्य फ्लैट में उसके द्वारा प्लास्टिक की थैलियों में अवैध रूप से उगाए हुए 34 गांजे के पौधे भी मिले। पुलिस ने मौके पर अवैध मादक पदार्थ व गांजे के पौधों को जब्त किया है। इसके बाद विदेशी नागरिक को गिरफ्तार कर एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया है।

NOTICE INVITING BIDS

Bids for steam generator are invited from interested bidders up to 6.00 p.m of 17.09.2020. Other particulars of the bid may be visited on the procur portal (http://eproc.rajasthan.gov.in and http://sppp.rajasthan.gov.in) of

'Mukhyamantri Nishulak Dava Yojan RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION LTD.

Ministry of Health & Family Welfare

CIN:U24232RJ2011SGC035067, Email: edprmsc@nic.in and rmsc.health.rajasthan.gov.in lef. No.: F 02(301)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-24/2020/1611

NOTICE INVITING E-BID

RATE CONTRACT CUM SUPPLY AND EMPANELMENT OF DRUGS AND MEDICINES. Details of NIB may be seen in the Bidding Documents http://sppp.raj.nic.in (UBN MSC2021GLRC00053) www.dipronline.org,

Executive Director (Procurement) RMSCL

चिल्ड्रेन्स समिट कार्यक्रम आज से

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन 9 और 10 सितंबर को ऑनलाइन लॉरिएट्स एंड लीडर्स फेयर शेयर फॉर चिल्डेन समिट का आयोजन किया जाएगा।यह समिट कोविड-19 और आर्थिक तंगी से बाल अधिकारों पर उत्पन्न हुए वैश्विक संकट को उजागर करेगा। समिट में बाल श्रम, बाल दर्व्यापार (टैफिकिंग), शिक्षा, खाद्य असुरक्षा, युद्ध एवं प्राकृतिक आपदा आदि के कारण तबाह हुए बच्चों की स्थिति पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

एयरपोर्ट की दीवार कृदकर अंदर घुसा किशोर

नवज्योति, जयपुर। सांगानेर एयरपोर्ट की दीवार कुदकर एक किशोर अंदर घुस आया। एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़कर पलिस के हवाले कर दिया। पछताछ में पलिस से बचने के लिए ऐसा करना बताया है। पलिस ने बताया कि सांगानेर एयरपोर्ट के वॉच टावर संख्या-12 पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने देखा कि एक लड़का क्रेश गेट के आगे की दीवार कुदकर एयरपोर्ट परिसर के अंदर आ गया है।पूछताछ करने पर उसने बताया कि बाहर पुलिस उसका पीछा कर रही थी। इसलिए दीवार कूदकर वह अंदर आ गया। पुलिस ने उसे निरूध कर बाल सुधार गृह भिजवा दिया है।

महिला के पर्स से एक लाख रुपए चोरी

नवज्योति, जयपुर। प्राइवेट बस में बैठकर अजमेर से जयपुर आ रही महिला के पर्स से एक लाख रुपए चोरी होने का मामला

सामने आया है।इस संबंध में पीडिता सांगानेर सदर स्थित गोविन्दपुरा निवासी पिंकी कंवर ने श्याम नगर थाने में रिपोर्ट Date: 12.03.2020 दर्ज कराई है। पीड़िता ने M/s Renuka Farmers LLP, 802-A, K.J. City Shri Jaipal Saini, Partner 4, Ward No. 19, बताया कि जब उसने बगरू के पास अपना पर्स संभाला तब रुपए रखे हुए थे। उसके बाद 200 फीट बाईपास पर उतरकर पर्स देखा तो रुपए Detaillers.

Please refer to branch notice dated 03.10.2019 vide which branch had pointed out event(s) of wilful default in the loan account. No reply/representation received by the Bank. The facts of the matter were placed before the Committee for identification of Wilful Defaulters, who after going नहीं मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है। through facts of the matter, evidence on record and your representation made, has found that there is /are event(s) of wilful default committed by you. Accordingly, the 'Committee for identification of Wilful Defaulters' set up by the bank, has identified the default, as Wilful to classify you (Berrower) & Directors/Partners/etc. as "Wilful Defaulter", interalia for the following reason(s):

शराब की पेटियो के साथ दो गिरफ्तार

नवज्योति, जयपुर।खो-नागोरियान थाना पुलिस ने मंगलवार को अवैध शराब की पेटियो से भरी जीप के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी जयप्रकाश मीणा निवासी टोडाभीम और राजवीर सिंह पीलवा नागौर इंदिरा गांधी नगर में अवैध शराब से जीप लेकर आए थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 14 पेटी शराब की जब्त की है।

बदमाशों ने छीना महिला का मोबाइल

नवज्योति, जयपुर। आदर्श नगर थाना इलाके में बाइक सवार दो बदमाश झपट्टा मारकर एक महिला का मोबाइल छीनकर ले गए। अंबेडकर नगर इमली फाटक निवासी शकुंतला खोलिया ने मामला दर्ज कराया है।पीड़िता ने बताया कि वह राजपार्क स्थित गुरुद्वारे के सामने से जा रही थी।इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश पीछे से आए और झपट्टा मारकर उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गए। पुलिस आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। उधर, श्याम नगर थाने में पद्मावत कॉलोनी निवासी रंजु माथुर ने रिपोर्ट दी है कि वह दूध लेकर अपने घर आ रही थी। तभी बाइक सवार एक युवक आया और गले से सोने की चैन खींचकर ले गया।

विवाघकों के स्थिरीकरण के लिए सम्म (आदेश 5 के नियम 1 और 5) अतिरिक्त सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम स.- 01, जयपुर जिला जयपुर

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

विरुद्ध एस. कुमार जैन वाद बाबत् वसूर्ल वाद सं 112 सन् 2018 (32/2019) बनाम– एस. कुमार जैन पुत्र श्री शान्ति लाल जैन निवासी— ४ए. अशोक वाटिका, दीप हॉस्पिटल

के पास, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर-

302025 (राज.) ने आपके विरुद्ध वसूली के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 05 माह 10 सन् 2020 को दिन में 10:00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/ सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में

आपको सूचित किया जाता है कि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता. 03 माह 09 सन् 2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1 जयपुर जिला जयपुर

UBN: GSM2021GLOB00163 Dy. General Manager (Purchase)

Ministry of Health & Family Welfare Government of Rajasthan, RMSCL, Gandhi Block, Swasthya Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005, India none No: 0141 -2228066, 2228064, Fax No. 0141-2228065, Website: http://rmsc.health.rajasthan.gov.ir

E-bids are invited up to 6.00 PM of 21.09.2020 for for E-BID FOR at our office or at the website of State Public procurement Portal http://eproc.rajasthan.gov.in, http://rmsc.health.rajasthan.gov.in and may be downloaded from there.

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank	SASTRA Division, Corporate Office, Dwarka, Sector-10, New Delhi-110075
	THE BORROWER/GUARANTOR(S) /NON- GROUP Tor(S)/ Group Corporate Guarantor(S)
To,	Date: 13.03.2020
M/s Surendra Designer Art, C-	34, A, Ramgali No. 8, Raja Park, Jaipur.
Shri Rajendra Wadhwa, Pro Hanumangarh Road, Srigangana	prietor House No. RR-3, Ridhi Siddhi Enclave 1st, ıgar(Raj.)

Dear Sir/s, REG.: Identification of default in the loan account of M/s Surendra Designer Art.; 80 ohari Bazar, Jaipur with the Bank, as "Wilful"- Consequently disclosing and pu

our name/s as "Wilful Defaulters".
Please refer to branch notice dated 28.06.2019 (Notice returned undelivered and published in the Newspaper Business Standard on 15.11.2019) vide which branch had pointed out event(s) of wilful default in the loan account. No reply/representations were received by the Bank. The facts of the matter were placed before the Committee for identification of Wilful Defaulters, who after going through facts of the matter, evidence on record and your representation made, has found that there is /are event(s) of wilful default committed by you. Accordingly, the 'Committee for identification of Wilful Defaulters' set up by the bank, has identified the default, as Wilful to classify you (Borrower) & Directors/Partners/etc. as "Wilful Defaulters", interaila for the following reason(s):

Siphoning of Funds:

"The Firm has disposed off the hypothecated stock without depositing the sales proceeds in the Bank. As per visit report dated 07.07.2019 by Chief Manager, the borrowers have not undertaken any business activities and unit has been closed."

In case you feel aggrieved by the conclusion of the "Committee for Identification of Wilful Defaulters", you may make a submission/representation, if you so desire, to the "Committee for Identification of Wilful Defaulters" and show cause as to why you should not be classified as "wilful defaulter". Your submission/representation must reach us within 15 days of the receipt hereof and be sent to Dy. General Manager, SASTRA DIVISION 3rd Floor, Punjab National Bank, Corporate Office, Sector-10, Dwarka, New Delhi. If we do not receive any submission/representation of yours, it would be deemed that you

have nothing to say in your defence (against the conclusion of the "Committee fo dentification of Wilful Defaulters") and Bank may publish your name or the name/s of your company/firm/ unit and your Director/s/Partner/s/Proprietor as "Wilful Defaulters" to RBI/CIBIL/other credit information Companies and in such manner and through such

medium as the bank in their absolute discretion may think fit. (Rajendra Singh Rathore) (Rajeev Khera) General Manager-Sastra General Manager-Credit (Rajendra Singh Rathore) General Manager-Sastra (Agyey Kumar Azad

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

क्रमांकः विद्युत/2020-2021/ई-05/387

बोली आमन्त्रण सूचना संख्या-ई-05/2020-21

नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा नगर निगम उदयपुर एवं राजस्थान सरकार के समुचित वर्ग के सूचीबद्ध ठेकेदारों/सम्बन्धी कार्य के अनुभवी संवेदकों/केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के विभिन्न उपयुक्त श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो उनसे निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण इंटरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

l	कुल निविदा के कार्य	निविदा की अनुमानित लागत			
l	Rate Contract for LED Street Light wo Including 3 Year O & M in Udaipur City	Rs. 40.737 Lac.			
	ARC for Repair & Maintenance of Nagar Nigam Udaipur.	Rs. 6.32 Lac			
	ऑन लाईन निविदा फार्म मिलने व जमा कराने की दिनांक	5.09.2020 प्रातः 11.00 बजे से 5.09.2020 सायं 4.00 बजे तक			
	निविदा के दस्तावेज जमा कराने की दिनांक ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक		16.09.2020 प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे तक		
			16.09.2020 सायं: 04.00 बजे तक		
	अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) आयुक् नगर निगम, उदयपुर नगर निगम,		महापौर र नगर निगम, उदयपुर		

पूर्णतः आयुर्वेदिक, स्वदेशी एवं ईमानदार क्रीम याने मुंहासों के लिए तरदान 60 सालों से युवाओं की स्किन केयर, 12 गुणों का विशाल भंडार MRP : 120/-Save ₹25/-Now 95/_{(20 g} इससे कोई साईड इफेक्ट Only नहीं होता है An all purpose, all season cream for all ages with proven results (Men, Women & New Born)

WOW! पार्लर जैसा _{GLOW... राजन} Ayurvedic Multipurpose आप अपने खूबसूरत चेहरे के लिए केवल 1 ह्न. प्रतिदिन भी नहीं खर्च कर सकते हैं?

ागर आप चाहते हैं खूबसूरत चेहरा तो आप आज ही केवल एक ट्यूब कॉलेजियन कीम ले आएं, फिर देखें कि कुछ ही दिनों में आपके चेहरे पर निखार एवं खूबसूरती इनिया भर की देशी या विदेशी कंपनिय . ठी कई क्रीम या फेशियल के कई साधन शपरें या फिर केवल एक ट्यूब कॉलेजियन

खे। स्वयं ही परिणाम देखें आप

क्योंकि ऐसी चीजें बनाई नहीं जाती है बल्कि वरदान के रूप में बन जाती है। amazon.in Flipkart

ER CARE 0731-2341283 / 9406551051 Time: 10 AM to 6 PM

सभी मेडिकल/ जनरल स्टोर्स पर उपलब्ध है।

आप अपने परिवार के लिये केवल 1 ट्यूब कॉलेजियन क्रीम की अवश्य ले जायें।

Get Orecon Like Glow East for Fin Best Skin Care Par WANTED STOCKIST 9926054001

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(टीडब्लू शाखा) नया पावर हाऊस परिसर, हैवी इंडस्ट्रीयल एरीया, जोधपुर- 342003 दूरमाष : 0291-2742336 फैक्स :-(0291) 2745259

अल्पकालिक ई-निविदा सूचना

जयपुर, बुधवार, 9 सितंबर 2020

जोधपुर डिस्कॉम में पाली वृत के सहायक अभियंता सी एस डी ॥। के अधीन रॉ वाटर पम्पिंग स्टेशन पी.एच.ई.डी. मांडली ँके लिए 11 KV सिंगल सर्किट 2 KM लाइन, 1.5 KM डबल सर्किट

लाइन एवं 0.38 KM भूमिगत केबल के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। TNTW 518 (UBN संख्या- JVV2021WSOB00178) अन्य विवरण जैसे निविदा मूल्य धरोहर राशि, निविदा प्रस्तुत करने / खुलने की तिथि का विवरण इत्यादि वेबसाईट <u>www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl</u> एवं <u>www.eproc.rajasthan.gov.in,</u> द्वारा जानी जा सकती हैं। निविदा कर्ताओं को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है की ऑन लाइन <u>www.eproc.rajasthan.gov.in</u> पर निविदा डालने से पहले निविदा दस्तावेजों का

सावधानी पर्वक अध्यन्न कर ले सूचना :— भविष्य में इन् निविदाओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार के संशोधन. तिथि बढने की जानकारी आदि केवल वेबसाइट <u>www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl</u>. www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करायी जायेगी। अधीक्षण अभियन्ता (टीडब्लू)

बिजली संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6045

कार्यालय नगर परिषद डगरपर (राज.)

क्रमांक :-निर्माण/न.प.डूं./2020-21/1120

निविदा सूचना संख्या 31/2020-21

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से मय डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि के लिए राजस्था सरकार के 'एए','ए' बी एवं सी, डी श्रेणी के संवेदकों एवं केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार व अनुभवी व्यक्तियों उनके अधिकृत संगुठनों में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार 'एए','ए', 'बी' सी, डी के समकक्ष हों एवं अनुभवी संवेदक निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से संबंधित विवरण इंटरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in/www.sppp.raj.gov.in पर उपलब्ध है।

,	
कुल निविदा के कार्य	1 कार्य
निविदा की लागत	12.00 লান্ড
कुल धरोहर राशि	अनुमानित लागत की दो प्रतिशत 24000/-
ऑनलाईन निविदा फार्म मिलने की तारीख	04.09.2020 प्रातः 11 बजे से 14.09.2020 सायं 6.55 बजे तक
ऑनलाईन निविदा फार्म जमा कराने की तारीख	04.09.2020 प्रातः 11 बजे से 14.09.2020 सायं 6.55 बजे तक
कार्यालय में डी डी जमा कराने की तारीख	15.09.2020 सायं 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तारीख	16.09.2020 प्रातः 9.00 बजे से
NIB Code - DLB2021A3178	UBN No - DLB2021WSOB12065
	आयुक्त व प्रशासक
TET TITE / TO / 4064 / 2000 04	नगर परिषद दंगरपर (राज)

SASTRA Division, Head Office, Sector-10, Dwarka, Nev Delhi-110075 Email: horecovery@pnb.co.in

Annexure-III Date: 09.06.2020 1. M/s Kasidakari. a Proprietorship Firm of Smt. Gunjan Wadhwa, Borrower at C-34

Ramgali No. 8, Rajapark, Jaipur. 2. Smt. Gunjan Wadhwa W/o Shri Sudhanshu Wadhwa, Proprietor at C-91/302, Jagra

REG.: Show Cause for Identification of default in the loan account of M/s Kasidakari with PNB, Johari Bazar, Jaipur as "Wilful"

Please refer to notice dated 28 06 2019 issued by the bank vide which the event(s) of willfu rease refer to flotte dated 20.00.2019 is sound by the bark vide which in the event(s) of whill default perceived in the captioned loan account has been pointed out and you thereby hav been called upon to rectify the default/s, within 10 days of receipt of the said notice. Howeve ou have failed/neglected to take any action thereto.

The facts of the matter were placed before the Committee for identification of Wilful Defaulters, constituted in consonance with the RBI Guidelines. The Committee in its meeting held on 17.02.2020 after going through facts of the matter and evidence on record, has concluded that event(s) of default/s has occurred in the account which are wilful and ubstantial to classify you as "Wilful Defaulters", inter alia for the following reason:

Siphoning of Funds: The Borrower has disposed of the hypothecated stock without epositing the sales proceeds in the Bank. As per visit report dated 07.07.2019 by Chie Manager, the borrower has not undertaken any business activity and the unit has been

In case you feel aggrieved by the aforesaid conclusion of the "Committee", you may make a submission/representation, if you so desire, to the committee from the observation and show cause as to why you should not be classified as "wilful defaulter". Your submission/representation must reach us within 15 days of the receipt hereof and be sent either to Dy. General Manager, SASTRA Division, 3rd Floor, East Wing, Punjab National Bank, Head Office, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075 or through the Branch Manager, PNB, POLINDE PRESENTIAL TRANSPORT OF THE PROPERTY OF Head Office , Sector 10, Dwarka, New Delni-1100/5 or unrough the branch manager, BD: John Bazar, Jaipur, If we do not receive any submission/representation of yours, it would bot. John Bazai, Sajuhi. I we of not receive any submission/representation by our six, it would be deemed that you have nothing to say in your defence against the conclusion of this Committee. If we do not receive any submission/representation of yours, it would be deemed that you have nothing to say in your defence against the conclusion of this Committee. Please take note that pursuant to submission/non submission of your reply in response to the show cause notice, the committee shall proceed to pass an order with regard to declaration of the Wilful Defaulter as per the RBI Guidelines.

Members of the Committee for Identification of wilful defaulters (Jyoti Ranjan Rath) (Rajeev Khera)

(Agyey Kumar Azad) General Manager General Manager

■ बैला कासा फैशन एंड रिटेल लिमिटेड गंजीकृत कार्यालयः ई–102, 103, ईपीआईपी, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर–302022 (राजस्थान

(CIN L17124RJ1996PLC011522), दूरभाषः 0141-2771844, ई-मेलआईडीः cs@bellacasa.in, वेबसाइटः www.bellacasa.ir

सूचना

एतद्दवारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी की 24वीं वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम' सितम्बर 30, 2020 को दोपहर 12:00 बजे, IST से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') की सुविधा के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सुचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम. 2015 के साथ कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सर्क्युलर नं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल 2020 तथा 5 मई 2020, क्रमशः (''एमसीए सर्क्युलर'') तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी सर्क्युलर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 तिथि 12 मई 2020 (''मेबी सर्क्यलर'') के अनुमार लाग होने वाले पावधान के अनुपालन में. किसी स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आमंत्रित की गई है।

एमसीए सर्क्युलर अथवा सेबी सर्क्युलर के अनुसार, 24वीं एजीएम की सूचना, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तिय विवरणों सहित 2019-2020 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को ईमेल के द्वारा भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कम्पनी के पास या उनके सम्बन्धित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के पास पंजीकत है। एजीएम की सचना तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक विवरण के प्रेषण कार्य को सितम्बर 08, 2020 को पूरा कर लिया गया है। उपरोक्त सभी प्रपत्र कम्पनी की वेबसाइट www.hellacasa.in तथा बीएसर्ड लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यों को 24वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकताओं को एमसीए सर्क्युलर तथा सेबी सर्क्युलर के अनुसार भेजने की आवश्यकता नहीं है एवं इसका अनुपालन किया गया है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा कम्पनी (प्रबंधन एंव प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 यथा संशोधित और सेबी (सूचीकरण दायित्व एंव आवश्यक उद्धोषणा) विनियम 2015, के विनियम 44 के तहत कम्पनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावित प्रस्तावीं पर इलेक्टोनिक मतदान करने की सविधाएं प्रदान कर रही है। कम्पनी ने इलेक्ट्रोनिक ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है।

रिमोट ई-चोटिंग रविवार, सितम्बर 27, 2020 को प्रात: 9:00 बजे आरम्भ होगी तथा मंगलवार, सितम्बर 29, 2020 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति इस तिथि और समय के बाद प्रदान नहीं की जायेगी। एजीएम में इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान करने के लिये पात्रता निर्धारण हेतु कट ऑफतिथि सितम्बर 23, 2020 है। रिमोट ईं-वोटिंग के विस्तृत दिशा-निर्देश एजीएम की सुचना के नोट नं. 26 मे दी गई है।

ऐसे सदस्य जिन्होंने 24वीं एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिया हो वे सभी सदस्यगण 24वीं एजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकते है, लेकिन उन्हें फिर से मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

ऐसे सदस्य, जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित करते है तथा कम्पनी के सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि तक कम्पनी के सदस्य रहते हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के लिए एजीएम की सचना में दी गई समान प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ई–वोटिंग के लिये सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत है तो वह मतदान करने के लिये वर्तमान यूजर आई डी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। यूजर आईडी तथा पासवर्ड लेने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना मे दी गई है, जोकि कम्पनी की वेबसाईट www.bellacasa.in तथा सीडीएसएल की वेबसाईट vww.cdsindia.com पर भी उपलब्ध है।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ई–मेल पते इस सूचना में प्रस्तावित प्रस्तावों के लिए ई–वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त करने के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं।

भौतिक शेयरधारकों के लिए - कृपया फोलियो नंबर शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व.सत्यापित स्कैन की हुई प्रति), आधार (सेल्फअटेस्टेड स्कैन की गई प्रति) जैसे आवश्यक विवरण कार्ड) कंपनी / आरटीए ईमेल आईडी पर ईमेल द्वारा प्रदान करें।

2. **डीमैट शेयरधारकों के लिए** – कपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल –16 अंकों की लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल -16 अंक डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व. सत्यापित स्कैन कॉपी) AADHAR कंपनी, RTA ईमेल आईडी पर आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी)प्रदान करें।

पुछताछ के लिये सदस्यगण www.evotingindia.com के सहायता खंड मे Frequently asked nelpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते है। अथवा श्री नितिन कुंदर (022-23058738) या श्री महबूब लखानी (022–23058543) या श्री राकेश दलवी (022.23058542) कम्पनी सचिव सोनिका गुप्ता, ई-102, 103, ईपीआईपी, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302022(राजस्थान), दूरभाष नं.-0141-2771844, ई-मेल आई डी- **cs@bellacasa.in** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कम्पनी अधिनियम 2013, की धारा 91 तथा लागू नियम और सेबी (सूचीकरण दायित्व एंव आवश्यक उद्घोषणा) विनियम 2015 के अनुसार कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा अंश हस्तातंरण बुक गुरूवार, सितम्बर 24, 2020 से बुधवार, सितम्बर 30, 2020 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

श्रीमान इंद्रजीत शर्मा को उचित रूप तथा पारदर्शिता से ई-वोटिंग प्रक्रिया को जांचने के लिए संवीक्षक (Scrtuniser) के तौर पर नियुक्ति किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग के नतीजे की घोषणा 02 अक्टूबर 2020 को अथवा उससे पूर्व की जायेगी। स्वरूटनाईजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कम्पनी की वेबसाईट www.bseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाईंट www.cdslindia.comपर उपलब्ध होगा और इसे स्टॉक एक्सचेंज (BSE Limited) को भी सुचित किया जाएगा, जहां कम्पनी

बैला कासा फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के लिये दिनांक: 08, सितंबर 2020 स्थानः जयपुर सोनिका गुप्ता, कंपनी सचिव

रेल कोच फैक्टरी. कपरथला

	विक्रियम्बर्धि विक्रियाम्बर्धि	के राष्ट्रपति की उ	ओर से आरसीएफ, पीसीएमएम द्वारा ऑन	लाईन बोलियां आमं	त्रित की गई हैं:-
क्र.सं.	निविदा संख्या एवं नियत दिनांक		विवरण	मात्रा (नग⁄ सैट्स)	ईएमडी ₹
1.	05201317 24	4/09/2020	ब्रैकेट का सैट मुकम्मल	2837 सैट्स	61,520/-
2.	05201231A	05/10/2020	एलएचबी के लिए फैन ब्रेकट का सैट	215 सैट्स	72,230/-
3.	02201204 29/09/2020	एलएचबी ईओ	एलएचबी ईओजी भांति कोचेज के लिए कैपॅसिटर बैंक		3,17,540/-
4.	02201207 29/09/2020		गेलीमाइड फ्लेक्सिबल कण्डुइट पीजी 11, पीजी 36, गीजी 16 एवं पीजी 21		2,28,630/-
5.	02201232 01/10/2020	केज क्लैम्प टरि	र्ननल्स (दो किस्में) का सैट	16,126 नग	2,45,400/-

ा. विवरण और ऑन लाइन बोलियों के निर्माण (मेकिंग) हेतु, वेबसाइट http://ireps.gov.in पर ड्राइंग्स बेनिर्देशनों, जहां कहीं आबश्यकता हो, विजिट करें तथा आरसीएफ बेबसाइट http://www.rcf.indianrailways.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। ऑनलाईन बोलियों के लिए वर (दर्जा) IIIb डिजिटल सिग्रेचर प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, इसे अनुज्ञप्त प्रमाणित करने वाली एजेंसियां जिन्हे ttp://www.cce.gov.in पर सुचीबद्ध किया हुआ है, से प्राप्त किया जा सकता है। 2. निविदायें 14:25 बजे | नियत् दिनांक को बंद कर दी जायेंगी, तथा निविदा 14:30 बजे खोली जायेंगी। निविदायें तिलक ब्रिज, नई दिल्ली पर खोली जायेंगी। 3. पूछताछ के लिए, आईआरईपीएस हैल्पडेस्क 011-24102855, 011-24105180 पर अथव आरसीएफ हेल्पडेस्क 011-23378658 पर सम्पर्क करें ।

नोटः आरसीएफ के जीएसटी नम्बर है 03एएएजीएम0289सी 1जेड़टी। सभी आपूर्तिकर्ताओं को परामर्श दिया ज है कि उनके द्वारा की गई आपति के लिए इसे अपने प्रेषण प्रपत्रों में उल्लेख करें। ऊपर उल्लेखत सभी निविदायें ई-निविदायें है तथा सभी संवेदकों को अपनी बोलियां आईआरईपीएस वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर ऑन लाईन के जर्ये प्रस्तुत करने का अनुरोध है। ऊपर उल्लेखित निविदाओं के सम्बन्ध में विवरण के लिए तथ अन्य आपूर्ति निविदाओं के लिए कृपया आई आरईपीएस वेबसाइट विजिट करें। शुद्धिपत्र

अधो संशोधन निविदा संख्या 01201139 के क्रॉस सैक्शन के विरुद्ध अधिकृत है, नियत दिनांक को 02.09.202 के बनिस्पत 16.09.2020 के रूप में पढ़ा जावें। 2. निविदा संख्या 05201299 को एलएचबी एसी 3 टीयर कोचेज (गरीब रथ) के लिए कारलाइन्स मुकम्मल का सैट जिसमें मदों के विवरण को एलएचबी एसी 3 टीयर कोचेज गरीब रथ) के लिए कारलाइन्स मुकम्मल का सैट के रूप में पढ़ा जावे, ड्रांइग (नक्शा) एमपी20 सीएआरजीआरएटीएच तर्जुमा 01 के अनुरूप के बनिस्पत एलएचबी एसी 3 टीयर कोचेज (गरीब रथ) की व्याख्या (रूपान्तरण) कारलाइन्स मुकम्मल का सैट के रूप में पढ़ा जावे, नक्शा : एमपी 20 सीएआरजी आरएटीएच कं ाख्या 0 के अनुसार तथा अमानता जमा राशि (ईएमडी) को रुपये 407640/- के बनिस्पत रुपये 402130/- के रूप में पढ़ा जावें।3. निविदा संख्या 07201179 के एलएचबी एएसपी बोगियों के लिए अरमेटा फिटिंग्स का सैट सैट के प्रत्येक मद को एक एक कर के पैक किया जाना है। फाइनल पैकिंग से पहले एक बॉक्स में सभी मद) मात्रा 1706 सैट्स के बनिस्पत 1513 सैट है, इसे रुपये 203460 के बनिस्पत रुपये 889340/- के रूप में पढ़ा जावे तथा

नयत दिनांक 07.09.2020 के बनिस्पत 17.09.2020 के रूप में पढ़ा जावे। दिनांकित 08.09.2020 सूचना संख्या जी-122-01/स्टोर/061/2020-21



बिना पासपोर्ट वीजा के रह रहा था जयपुर में

ब्युरो/नवज्योति, जयपुर।

तलाशी में उसके पास कोई पासपोर्ट

ZIM LABORATORIES LIMITED CIN: L99999MH1984PLC032172

Registered Office: Sadoday Gyan (Ground Floor), Opp. NADT, Nelson Square, Nagpur 440 013 Website www.zimlab.in e-mail cs@zimlab.in

NOTICE OF THE 36th annual general meeting

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting of ZIM aboratories Limited will be convened on Wednesday, the 30" September, 2020 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC) facility to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice o the 36" AGM in compliance with the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with General Circular bearing No. 14/2020 dated 8th April, 2020, No. 17/2020 dated 13" April, 2020 and No. 20/2020 dated 5" May, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO CFD/CMD1/CIR/2020/79 dated 12" May, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), for conducting AGM without the physical presence of Members at the venue.

In terms of the MCA Circular(s)/SEBI Circular, the Notice of the Meeting and the Explanatory Statement along with the Annual Report for the Financial Year ended 31" March, 2020 is sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participants/RTA on 08th September, 2020. The requirement for sending physical copy of the Notice of the Meeting and Annual Report to the Members have been dispensed with in compliance with the MCA/SEBI Circular.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the 23" September,2020 (cut-off date) can cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 36" AGM through remote e-voting facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The Members are informed that:

 The Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of 36th AGM, will be transacted through voting by electronic means.

The Registers and documents as required under the Companies Act. 2013 for inspection by the shareholders during the AGM shall be available for inspection in electronic mode.

The remote e-voting shall commence at 09.00 a.m. on Sunday, 27" September, 2020 and end at 05.00 p.m. on Tuesday, 29th September, The cut-off date for determining eligibility for remote e-voting or

through e-voting system during the 36th AGM has been fixed as 23" September, 2020. Any person who becomes a Member of the Company after the

Company sends the Notice of the 36th AGM by email and holds shares as on the cut-off date i.e. 23" September, 2020 may obtain User ID and password by sending a request to the Company's email address cs@zimlab.in . However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote. Members may note that :

Once the vote on the resolutions are cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently. The Members who cast their vote by remote e-voting prior to 36th AGM may also participate in the 36" AGM through VC Facility but shall not be

The remote e-voting module shall be disabled by NSDL on the elapse of

the voting end date i.e. 5.00 p.m. on Tuesday, 29" September, 2020.

entitled to cast their vote again. • Members participating in the 36" AGM and who had not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting

during the 36" AGM. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficiary owners maintained by the Depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting,

participating in the 36th AGM through VC and e-voting facility during the The Notice of the 36" AGM and the Annual Report are available on the website of the Company at www.zimlab.in, website of BSE Limited www.bseindia.com, website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

For gueries, you may refer the Frequently Asked Questions(FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Sarita Mote, Assistant Manager, National Securities Depository Limited. at the designated email IDs evoting@nsdl.co.in or SaritaM@nsdl.co.in at telephone nos. +91 22 24994890 who will also address the grievance connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at the Company's email address cs@zimlab.in.

The members of the Company holding shares in physical form and who have not registered their e-mail IDs may get their e-mail IDs registered with our RTA - Link Intime India Private Limited by clicking the link: https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html or through their website www.linkintime.co.in > Inventor Service > Email/Bank Registration > select "ZIM Laboratories Limited" and follow the registration processes as guided therein. Shareholders can also register their e-mail address by sending an e-mail request at the email ID rnt.helpdesk@linkintime.in along with the scanned signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN Card copy and copy of share certificate for registering their email address. Members holding shares in the demat form can update their email address with their Depository Participant.

 Ms. Roshni Jethani, Practicing Company Secretary, has been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and voting at the AGM, in a fair and transparent manner.

 The results of the remote e-voting and vote cast at the AGM shall be declared on or before 2™ October, 2020. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website www.zimlab.in and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com mmediately after their declaration, and communicated to the Stock Exchange where the Company is listed, viz. BSE Limited.

By Order of the Board of Directors For ZIM LABORATORIES LIMITED (Piyush Nikhade)

Place : Nagpur Date: 09" September, 2020 Company Secretary & Compliance Office **USS GLOBAL LIMITED**

(Formerly known as SURNIDHI INVESTMENT LIMITED CIN: L74900DL1993PLC056491 Regd office: 1502, 15th Floor, RG Trade Tower, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, New Delhi - 11003 Phone: 011 - 45824477

Website: www.ussgloballtd.com E-mail: surnidhiinvestmentItd@gmail.com Notice of 5/2020 Board Meeting Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 4 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, as amended Notice is hereby given that the 5/2020 Meeting o the Board of Directors of the Company scheduled to be held on Tuesday September 15th, 2020, at 3:30 P.M. at the Registered office of the Company, inter alia, to consider and take on record the Un - Audited Financial Results of the Company for the first guarter ended June 30th, 2020. The said information is also available on the

website of the Company at www.ussgloballtd.com and shall also be available on the website of the stock exchange at www.msei.in. By order of the Board

For USS Global Limited (Formerly Known as Surnidhi Investment Limited) **Mohit Gupta** Place: New Delhi Managing Director

Folio No. / No. of Shares VIJAY SINGH YADAVA

CHANDER MOHANI JAIN

FOLIO: ESC0051343 / Shares -46

Date: 8th September, 2020 DIN: 02366798

ESCORTS LIMITED (CIN - L74899HR1944PLCO39088) **PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that the following shares bearing distinctive numbers are stated to have been lost/ misplaced or stolen and the registered holder(s)/ applicant(s) has/ have applied for issue of duplicate share certificate(s) Shareholder Name(s) /

Details of Equity Shares Lost

Dist No.(s): 64299928-64299973

Dist No.(s): 724915-725414

	ANIL KUMAR JAIN Folio: ESC0017158 / Shares - 2190	1368157-1368356 3540728-3540777 13231841-13232290 19505860-19506579 27107474-27107608 33357474-33357608
	ANIL KUMAR JAIN CHANDER MOHANI JAIN Folio: ESC0017156 / Shares - 2190	Dist No.(s): 5292580-5293329 13230941-13231390 19504420-19505139 27107204- 27107338 33357204- 33357338
1	Any person(s) who has / have any o	claim in respect of such aforesaid ed

shares must lodge claim in writing with the Company within 15days from the date of publication of this notice otherwise Company shall cancel the original share certificate(s) and issue duplicate share certificate(s) to the registered

holder(s) / applicant(s). Regd. Office: 15/5, Mathura Road, For Escorts Limited Faridabad - 121003, Haryana Phone: 0129-2250222 Satyendra Chauhan E-mail: corpsl@escorts.co.in, Company Secretary Website: www.escortsgroup.com & Compliance Officer Pate: 08.09.2020 financialexp.epapr.in

Classifieds

PERSONAL

I, Nixit Sethi Address: flat no. A-15, Suvidha Apartment, Plot no.-25, Sector-13, Rohini, Delhi-110085 have changed my minor daugther's name from Dhriti to DHRITI SETHI.

0040547828-1

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

FINANCE LIMITED CIN L45201RJ2005PLC020463

Registered office: AKME BUSINESS CENTR (ABC), 4-5 SUBCITY CENTRE SAVINA CIRCLE OPP. KRISHI UPAZ MANDI UDAIPUR RJ 313002 II E mail: compliance@akmestarhfc.in Contact No 0294-2489501

NOTICE

Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we would like to inform that meeting of the Board of Directors of the company is scheduled to be held on Monday 14th September, 2020 to consider and approve Unaudited Financial Results of the Company for First Quarter ended June 30th 2020. Further the Trading Window for dealing in securities of the Company for all Designated Employees and Directors already closed from Wednesday, July 01st, 2020 to Wednesday, September 16th, 2020 (Both days inclusive). For, Akme Star Housing Finance Limited Sdl-

Paritosh Kothari Date: 08-09-2020 Company Secretary & Compliance Officer

CHAMAK HOLDINGS LIMITED CIN: L51494DL1984PLC019684 Reg: 55-B, Rama Road, Industrial Area, New

Email: chamakholdings@gmail.com

This is to bring to your notice that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 15th Sep. 2020 at 3:30 P.M at 1/1 Kirti Nagar, Main Road, New Delhi- 110015, to inter-

Further, pursuant to the SEBI (Prohibition of If the expiry of 48 hours after the declaration of Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2020 for all the Designated/Connected persons Including their

Place: New Delhi Date: 08.09.2020

Anubhav Kathuria Managing Director DIN: 01198916

CIN: L74899DL1962PLC003634 Read. & H.O. 46. Dohil Chambers. 4th Floor, Nehru Place, New Delhi 110 019

Ph: 91-11-46579476 E-mail: admin@everesttools.com, Web-site: http://www.everesttools.com Notice of the Board Meeting

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 read with regulation 47 and other applicable regulation of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 15th September, 2020 at the registered office of the Company inter-alia, to consider, approve & adopt the Un-Audited Financial Results for the Quarter Ended on 30th June, 2020 and any other item of

This intimation is also available on the website of the Stock Exchanges where the shares of the company are listed at www.bseindia.com and also on the website of the company i.e. www.everesttools.com. For Hindustan Everest Tools Limited

business as mentioned in agenda.

Place: New Delhi Sonam Gupta Date: 08.09, 2020 Company Secretary

JMT AUTO LIMITED An AMTEK Group Company

Regd.Office:3- L S C Pamposh Enclave

Sd/

Guru Nanak Mrkt, Opp L.S.C Market, New Delhi - 110048 CIN - L42274DL1997PLC270939 Phone: 0657-6626340 Email:jmt.auto@amtek.com Web site:www.jmtauto.com NOTICE Notice is hereby given pursuant

Regulation 29 read with Regulation 4 of SEBI (Listing Obligations and Disclo sure Requirements) Regulation, 201 that a meeting of Board of Directors JMT Auto Limited shall be held of Monday, the 14th day of September 2020 online through video conferencing to considerand take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30t June, 2020. This is to further inform that the trading window shall remain closfor all designated employees of the Company from 8th September, 202 and shall continue until the beginning of 25th hour after the publi announcement of the financial result are made. The said information is also available on the Company's websit www.jmtauto.com and on the websit

> By Order of the Board of Director For JMT AUTO LTD

Mona K Bahadu Place: New Delhi Date: 08.09.2020 Company Secretar

of NSE & BSE.

S. E. RAILWAY - TENDER

e-Tenders against Open Tender are invite by the DRM/ENGG/CKP, S.E.Railway for & on behalf of the President of India for th following works. Manual offers are no allowed against these tenders & any suc manual offer received shall be ignored. S No. & Tender Notice No.; Name of Work Tender Value; EMD : (1) CKP-EAST-20 21-10, dated 07.09.2020; Gamharia Yard Conversion of scissor cross over into 1 i 12 crossing with fanshaped layout 16,40,142.08; ₹ 32,800/-. (2) CKP SOUTH-20-21-07, dated 07.09.2020 Execution of work of easement of slope/earth cutting, widening of cess, balla: retaining wall, drain work etc. in connectio with through sleeper renewal (primary work in between section NOMD-BYX BJMD-GX and PDPH-BSPX unde ADEN/DPS; ₹1,59,90,928.73; ₹2,30,000/ (3) CKP-SOUTH-20-21-08, date 07.09.2020; Easement of slope, stabilit of slopes and provision of RCC retainin wall at vulnerable cutting at Km 379/25E 31B (both UP and DN side) betwee section PDPH-JKDA under ADEN/ DPS ₹ 76,00,798.05; ₹ 1,52,000/-. Date o Opening: 18.09.2020 for sl. no. 1 an 28.09.2020 for sl. nos. 2 & 3. The tende can be viewed at website http://www ireps.gov.in The tenderers/bidders mus

have Class-III Digital Signature Certificat & must be registered under on IREP portal. Only registered tenderer/bidder ca participate on e-tendering. All relevant pape

n e-tendering. Head Office: "Lokmangal",

Request for Proposal (RFP)

AX1/IT/RFP082020/IT Bank of Maharashtra invites proposal from eligible bidders for Supply,

Installation & Maintenance of Security Solutions (Data Loss Prevention (DLP), Data Identification & Classification Tool (DICT), Database Activity Monitoring (DAM), Endpoint Encryption (EE) & Patch Management Solution (PMS)). The details and tender document would be available from 07th September 2020 on the Bank's website https://www.bankofmaharashtra.in in the Tenders Section. Bank reserves the right to cancel or reschedule the RFP process without General Manager, Information Technology

Coventry Coil-o-Matic (Haryana) Ltd Registered Office: 87th Km Stone, NH 8, Delhi Jaipur Road, Village Salawas, Sangwari, Dist. Rewari 123401 (Haryana)

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, a Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday 15th September 2020 at 12.30 p.m. at 87th Km Stone, NH 8, Delhi Jaipur Road, Village Salawas Sangwari, Dist. Rewari 123401 (Haryana) to, inter-alia, consider and approve the unaudited Financial Results of the Company for the first quarter ended on June 30, 2020.

Board of Directors

For and on behalf of the

Managing Director Place, Rewari

Date: 08.09.2020

Bella Casa Fashion & Retail Limited Registered Office- E-102, 103, EPIP, Sitapura

Industrial Area, Jaipur- 302 022 (Rajasthan), Website-www.bellacasa.in,CIN- L17124RJ1996PLC011522 E-mail-cs@bellacasa.in, Tel No. 0141-2771844 NOTICE

SINDHU TRADE LINKS LIMITED

Regd. Office: 129, Transport Centre, Rohtak

Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035

CIN: L63020DL1992PLC121695

Notice is hereby given that pursuant to

Regulation 29 read with Regulation 47 of the

Securities and Exchange Board of India

(Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, the

meeting of the Board of Directors of the

Company will be convened on Tuesday, 15th

September, 2020 at 04.30 P.M., to consider

and approve the Unaudited Financial Results

of the Company for the Quarter ended on

Further the Trading Window for dealing in the

shares of the Company by Designated

Persons and their connected persons is closed

This said information is also available on the

the stock exchange at www.bseindia.com.

By the order of the Board

Sarya Pal Sindhu

Managing Director

For Sindhu Trade Links Limited

30th June. 2020.

Directors of the Company

Notice is hereby given that the Twenty Fourth (24th) Annual General Meeting ("AGM") of the members of Bella Casa Fashion & Retail Limited ("Company") will be held on Wednesday, 30th September, 2020 at 12:00 P.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the ordinary business as set out in the notice of 24th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations) and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 08thApril 2020, 13thApril 2020 and 05thMay 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular(s)") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12thMay 2020 issued by the Securities Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue.

The electronic copies of the Notice of the 24th AGM, Annual Report for the F.Y. 2019-20 including the Audited Financial Statement for the Financial year ended on 31st March 2020 have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The dispatch of Notice of the AGM and the Annual Report for FY 2019-20 has been completed on 08thSeptember 2020. The above documents are also available on the Company's website i.e.www.bellacasa.in and the website of the BSE Limited www.bseindia.com. The requirement of sending physical copy of the Notice of 24"AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular(s) and SEBI Circular In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act

2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is offering remote e-voting facility for its Members enabling them to cast their vote electronically in respect of the business to be transacted at the AGMof the Company. The Company has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide e-voting facility. The remote e-voting will commence from 09:00 A.M on Sunday,

September 27, 2020, and ends on 05:00 P.M on Tuesday, September 29, 2020. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 23, 2020. The detailed instructions for remote e-voting process are mentioned at Note No. 26of the Notice of

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again. Any person, who acquires shares of the Company and become member of

the Company after despatch of the notice and holding shares as on cut of date, may follow the same procedure for remote e-voting as mentioned in the Notice of the AGM. However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting, then he can use his existing User ID and password for casting vote, Detailed procedure for obtainingUser ID and password is also provided in the Notice of AGM which is also available on the Company's website i.e. www.bellacasa.in and also on website of CDSL

Process for those Shareholders whose E-mail Addresses are not registered with the Depositories for obtaining Login Credentials for E-Voting For the Resolutions Proposed in this Notice:

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (selfattested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company/RTA email id. 2. For Demat shareholders -, please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned) copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card)

In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com. under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). Ms. Sonika Gupta, Company Secretary of the Company at E-102, 103, EPIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur- 302 022 (Raj.), Tel: 0141-2771844 and email

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 24, 2020 to Wednesday, September 30, 2020. (both

Mr. Indrajeet Sharma has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting in a fair and transparent manner. The results of the remote evoting and e-voting at the AGM will be declared on or before Friday, 02nd October 2020. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website at www.bellacasa.in and on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com for information of the Members besides being communicated to the Stock Exchange i.e. BSE Limited where the Company's shares are listed For Bella Casa Fashion & Retail Limited

Place: Jaipur Sonika Gupta Date: 08.09.2020

punjab national bank the name you can BANK upon!

Symbolic Possession Notice (For Immovable Property

Punjab National Bank/ the Authorized Officer/s of the Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13 read with the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice/s on the dates mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s).

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on 03.09.2020. The borrower's /guarantor's /mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge

of Punjab National Bank for the amounts and interest thereon. Sr Branch Name of Data ile of Martages Data of Demand Nation Data of Symbolic

l	No.	Name	Account & No.	and address	Property	& Amount as per Notice	Possession notice Affixed	Authorized Office
	1.	Baghpat Road Meerut	M/s Eishaan International A/c No. 2533008700004	Lokesh Kr Swami S/o Sh. Manabir Prasad Swami Shikha Swami D/o Ramendra Kr Sharma Add. 61-A, Som Dutt Vihar Garh Road Meerut. Mrs. Manju Sharma W/o Mr. Nitin Sharma. Add.	Property Situated at F-101 Ground Floor Palm Green Supertech Delhi Road Meerut having an area measuring 113.90 Sq Mtrs	06.03.2020 Rs. 26,01,186.10 + intt. w.e.f. 01.03.2020 + Other Charges	03.03.2020	Mr. Ashish Kumar (Chief Manager)
Date - 08.09.2020		8.09.2020	Plac	e: MEERUT	100 101 1	Authorized	Officer	

Possession Notice (For Immovable Property)

punjab national bank ...the name you can BANK upon!

Punjab National Bank/ the Authorized Officer/s of the Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002,

and in exercise of powers conferred under Section 13 read with the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice/s on the dates mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/ date of receipt of the said notice(s). The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on 05.09.2020. The borrower's /guarantor's /mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets

The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of Punjab Sr

Sr. No.	Branch Name	Name of Account & No.	Name of Borrowers and address	Details of Mortgage Property	Demand Notice date (13/2) notice & Amount as per Notice	Date of Symbolic Possession notice Affixed	Name of Authorized Officer
		Balushai Wale	Wale Proprietor Sh. Asif Ali S/o Sh. Habib Ahmed, 243,	House No 243 (Previous NO- 220), Purvi Islamabad, Meerut, UP. Reigistered at Bahi No-1, Jild No 5160, Page No 183 to 206 at S. No- 654 dated 18.01.2011. Bounded: East- 16 fee 3 inch/ House of Rafiq, West- 16 feet 3 inch/ 20ft wide road, North- 49.84 feet/ house of Rafiq, South- 49.84 feet/ House of Shamim Ahmed	NEW DISTRICT	3344444444	Sh. Manoj Kumar Sharma 8527711114
2.		Sh. Jay Singh A/c- 253400NC001088	Singh. House No- 2191, Khasra No- 860, Mohalla	Residential House -2191, Khasra No- 860, Mohalla Indira Nagar Meerut UP, 250002 Registered at Bahi No 1, Jild No 11656, Page No 57 to 86, S. No- 10216 dated 20.09.2016. Bounded : East:- 13 Feet 8.5 inch/ 12 feet wide Rasta, West: 13 feet 8.5 inch/ plot of others, North: 30 feet 9 inch/ House of Smt. Veena Verma & Smt. Geeta Sharma, South: 31	Rs. 10,40,751.50 + intt & other charges from 01,12,2019		Sh. Manoj Kumar Sharma 8527711114

Feet/House of Ganga Ram and others. plot no 22

Place: Meerut

G. K. CONSULTANTS LIMITED Regd. Office: 302, G. K. House,

187-A, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110 065

Tel:+91-11-26489431 Fax:+91-11-26489299 Web: www.gkconsultantsltd.com CIN: L74140DL1988PLC034109 NOTICE

In terms of provisions of Regulation

47(1)(a) read with Regulation 29(1)(a)

of the Securities and Exchange Board

of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 15" September, 2020 at 3.30 P.M. at the Registered Office of the Company to consider and to take on record the Quarterly Unaudited Financial Results as on 30th June, 2020 pursuant to the Regulation 33 of LODR

CS. Shilpa Verma Place: New Delhi Company Secretary Date: 08.09.2020 FCS: 10105

lotice is hereby given that the share

bearing distinctive nos. 553981 554015. 1222801-1222815 2 58908-2158957. 8477502 8477552-847760 espectively standing in name of Sm Pushpa Garg in the book of M/s Maharashtra Scooters Limited, has been lost and the advertiser has ar plied to the company for the issue of duplicate share certificates in lieu thereof. Any person(s) who has claim(s) on the said shares should loage such claim(s) with the company's registrars and transfe agents viz KFin technologies Private Linited, Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financia District, Nanakramguda, Hyderabad 500032 within 15 days from the date of this notice failing which the company will proceed to issue duplicate share certificates in respect

Pushpa Garg Place: Ambala

of the said shares.

Date: 07.09.2020

UPELECTRICALS LIMITED Regd. Off: D-5, First Floor, Awadh Complex. Laxmi Nagar. Delhi- 110092 Tel. No. 011-49046355,

Email id: upelectricals1971@gmail.com **CIN:**L31200DL1971PLC005666 Website: www.upelectricals.in **NOTICE** Notice is hereby given, pursuant to Regula

Preet Kumar Place: New Delhi **Managing Director** Date: 08.09.2020 DIN: 08081343

Flace: Delhi

ate: 09/09/2020

PUBLIC NOTICE

Equity Certificate No. 051220. shares of Rs 10/- each [Distinctive Nos. 10163068 to 10163167] of EICHER MOTORS LIMITED having it's registered office at 3rd Floor, Select Citywalk, A-3 District City Centre, Saket New Delhi, in the name of RAMLAL & SANTOSH have been lost. They have applied to the company to issue duplicate certificate. Any person who has any claim in respect of said share certificate should lodge such claim with the company within 15 days of publication of this notice.

INTEGRA TELECOMMUNICATION AND SOFTWARE LIMITED Regd. Office.: Flat No. 901 B, Devika Tower 6, Nehru Place New Delhi -110019 Corp. Office: 610/611, Nirmal Galaxy Avior, L.B.S Road, Near Johnson & Johnson, Mulund (W), Mumbai - 400080 Contact:011-4100327.

E-mail: info@integratelesoftware.com Website: www.integratelesoftware.com CIN: L74899DL1985PLC020286 NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with

Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be heldon Tuesday, 15th day ofSeptember, 2020at 4:00 PM to inter alia, consider and approve the Standalone Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30thJune, 2020. The notice is also available on Company's website

ntegratelesoftware.com and website of the Stock Exchange www.bseindia.com. For Integra Telecommunication and Software Limited Jeet Rajen Shah

🚺 INDIA GLYCOLS LIMITED

Notice is hereby given to the public that the indermentioned shareholders of the Company has reported loss/misplacement of their Share Certificates as per details given below and have requested the Company for issue of duplicate should be lodged with the Company within 15 days of the publication of this notice or else the Company will proceed to issue duplicate Share

Certificates. Any person dealing with the original share certificates as mentioned below after expiry of the said notice period shall be doing so at his her own risk and company shall not be responsible for the same. Shareholders Cert.

	NOTICE	and Folio No.	No.		of ₹104 each
29	ice is hereby given, pursuant to Regulation read with Regulation 47 of the SEBI (Listing	Vipin Lakhani (00108558)	158000	18049071-18049170	100
Re of he 02	ligations & Disclosure Requirements) gulations, 2015 that the meeting of the Board Directors of the Company is scheduled to be d on Tuesday, 15th September, 2020 at 00 P.M at the registered office of the	Dilip Kumar Saxena Joint Holder- Shashi Saxena (00100059)	144411	16690171-16690270	100
Un th€	mpany, inter-alia, to consider and approve audited Financial Results of the company for Quarter ended on 30 th June, 2020. ther, the 'Trading window' for trading in the	Srikant Navandar Joint Holder- Shobha Navandar (00169678)	107370	9016771-9016870 10736271-10736370 11891071-11891170	100 100 100
	urities of the Company, shall remain close n 30th June 2020 till 48hours after declaration	Darshan V Shah (00202395)	134671	13466371-13466470	100
of ap pu	th days inclusive) in accordance with the Code Conduct for Prevention of Insider Trading as roved and implemented by the Company in suance of the SEBI (Prohibition of Insider ding) Regulations, 2015.	Amee Vijay Shah Joint Holder- Vijay Pravinchandra Shah (00160266)	110844	11083671-11083770	100
Th Cc	s notice shall also be available or mpany's website at www.upelectricals.in and o on stock exchange website at www.msei.in. For UP Electricals Limited Sd/-	Ramenial Kalidas Ruwala-Decessed Joint Holder- Sandhya Kashyap Ruwala (10061420)		10542571-10542670	100

Place: Noida, U.P. Date: 8th September, 2020 Company Secretary

ANKUR MARKETING LTD. CIN-L52110DL1985PLC020054

Regd. Office: D-9, Jungpura Extension, West Delhi, New Delhi-110014

Ph: 033 7130 0203; Email: ankurmarketing85@gmail.com Website: www.ankurmarketing.com NOTICE

Disclosure Requirements) Regulation 2015, notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on 15th September, 2020 at 3:00pm at 210, Ruby Park, Kasba Rathtala, Kolkata-700078, corporate office of the Company inter-alia to consider and approve the unaudited financial results tandalone) for the guarter ended 30th June, 2020.

By Order of the Board of Directors For, Ankur Marketing Ltd.

Company Secretary

Old Delhi Road Gurgaon-122001; Corp. Off. WZ-86, Galaxy Home, Todapur, New Delhi-110012;

CIN: L74900HR1994PLC033268: Email id: response@ankaindia.com; Phone no: 9820069933; 0124-2322570 website: www.ankaindia.com NOTICE OF THE 26th ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

has been completed on 07th September, 2020, in conformity with the regulatory In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Resolutions for consideration at the 26

Services (India) Limited ('CSDL') have been engaged by the Company. September, 2020 will be entitled to cast their votes by remote e-voting or a-voting during the AGM. A person who is not a Member on the cut-off date should accordingly treat the Notice

of the AGM as for information purposes only. Remote a-voting will commence at 9.00 a.m. on 27th September, 2020 and will end at 5.00 p.m. on 29th September, 2020, when remote a-voting will be blocked by CDSL. Members

who cast their votes by remote a-voting, may attend the AGM but will not be entitled to cas their votes once again. Persons who become Members of the Company after sending of the Notice of the AGM but on or before the cut-off date may write to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or to

the Company at response@ankaindia.com requesting for user ID and password for remote a-voting or e-voting during the AGM. Members already registered with CDSL for remote avoting should however use their existing user ID and password for this purpose. In case of any query/ grievance, Members may contact Mr. Anu Sharma, Compan Secretary at 41 Shivalik Building Near Saraswati Hospital/ Telephone Exchange Old Delh

www.ankaindia.com and available for inspection by the members at the Registered 8 Corporate Office of the Company during business hours on all working days (Except Saturdays and Sundays) between 9:00 A.M. to 5:30 P.M., till the conclusion of the AGM. A copy of the Notice is also available on CDSL's website at www.evotingindia.com. The result of e-voting shall be announced on or after 30th September, 2020 but not later than 48 Hours from the conclusion of AGM. The e-voting result and the Scrutinizer's report shall

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the

ANU SHARMA

New Delhi

DATED: 09.09.2020

Authorized Officer

from July 1, 2020 till 48 hours after declaration of Unaudited financial results for the quarter ended on June 30th, 2020 by the Board of Company's website at www.sindhutrade.com Regulations. and may also be available on the website of

By order of the Board G. K. CONSULTANTS LIMITED

regulation 47 of SEBI (Listing Obligations ertificate nos. 1226, 16129, 43488 and Disclosure Requirements 227535, 227536 for 200 shares

Date: 08.09.2020

Regd. Off:- A-1, Industrial Area, Bazpur Road, ashipur-244713, Disti. Udham Singh Nagar, Uttarakhan Phone: 05947-269500, Fax: 05947-275315 E-Mail: compliance officer@indiaglycols.com

Share Certificates in lieu thereof. Any objection(s

Name of the Share Distinctive No. of

00061420) For India Glycols Limited

Corp. Office: 210, Ruby Park, Kasba Rathtala, Kolkata-700078

Pursuant to Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and

(Divya Singh)

ANKA INDIA LIMITED

Read. Off: 41 Shivalik Building Near Saraswati Hospital/ Telephone Exchange

Members are hereby informed that dispatch of the Notice of the 26[™] Annual Genera Meeting ('AGM') of the Company convened for 30th September, 2020 and the Report and Accounts for the financial year ended 31st March, 2020 to the Members of the Company

AGM will be transacted through remote a-voting (facility to cast vote prior to the AGM) and also e-voting during the AGM, for which purpose the services of Central Depository Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date I.e. 23

Road Gurgaon-122001, Tel. No. 0124-2322570, Email ID response@ankaindia.com. The Annual Report including the AGM notice, is available on the Company's website

be placed on the Company's website www.ankaindia.com and CDSL's website www.evotingindia.com for the purpose of informing the members, besides being communicated to BSE Limited, where the shares of the Company are listed.

Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday 23rd Day of September, 2020 to Wednesday 30th day of September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company. FOR ANKA INDIA LTD **PLACE: GURGAON**

Company Secretary

Date - 08.09.2020

MC2

AKME STAR HOUSING

Pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing

Delhi DL 110015 IN

alia, consider and Approve Un-Audited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2020 and Appointment of the Managing Director for the Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in the securities of the Company is already closed from 01st July, 2020

dependents and immediate Relative(s). For Chamak Holdings Limited

must be uploaded at the time of participatin

1501, Shivaji Nagar, Pune-411005